

सोवियत संघ का वघिटन

प्रलिमिंस के लयि:

सोवियत संघ, पंचवर्षीय योजनाएँ, नाटो, IMF, वशिब बैंक, यूरोपीय संघ, नागोर्नो-कराबाख, आसयिन, बरहमोस मसिाइल, अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परविहन गलियारा (INSTC) ।

मेन्स के लयि:

सोवियत संघ का वघिटन और भारत एवं वशिब पर इसका प्रभाव । द्वितीय वशिब युद्ध, 1989 में बरलनि की दीवार का गरिना, द्वधिरुवीय वैश्वकि व्यवस्था, शीत युद्ध, 1991 में उदारीकरण, अंतरकिष प्रौद्योगकि, परमाणु ऊर्जा ।

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

चर्चा में क्योँ?

हाल ही में, 25 दसिंबर को उस दनि की वर्षगाँठ मनाई गई जब **करेमलनि** (रूसी सरकार का 'सत्ता केंद्र') से सोवियत ध्वज उतार दिया गया था, जो **सोवियत संघ** के अंत का प्रतीक था ।

- **सोवियत संघ**, आधिकारकि तौर पर **सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ (USSR)** वर्ष 1922 से वर्ष 1991 तक एक समाजवादी संघ था, जसिमें कई गणराज्य शामिल थे, जो **कम्युनिस्ट पार्टी** द्वारा शासति थे, और **रूस** प्रमुख शक्ति था ।



सोवियत संघ के गठन का कारण क्या था?

- **इतिहास (जारवादी शासन और राजशाही):** सोवियत संघ की जड़ें 1917 की रूसी क्रांति से जुड़ी हैं, जिसने रोमानोव राजवंश के 300 वर्ष के शासन (1613-1917) को समाप्त कर दिया।
 - जार के पास शासन, सेना और समाज पर **पूर्ण शक्ति** थी।
 - बढ़ती असमानता और **आर्थिक कठिनाई** ने असंतोष को जन्म दिया, जिससे क्रांतिकारी मंच तैयार हो गया।
- **फरवरी क्रांति 1917:** वरिष्ठ प्रदर्शन और हड़ताल के परिणामस्वरूप **जार निकोलस द्वितीय** ने राजशाही को त्याग दिया।
 - जार के स्थान पर एक **अनंति सरकार** बनी, लेकिन उसे **पेत्रोग्राद सोवियत** के साथ सत्ता संघर्ष का सामना करना पड़ा, जिस पर **बोलशेविकों और मॅशेविकों** जैसे **समाजवादी गुटों** का प्रभुत्व था।
- **अक्टूबर क्रांति 1917:** लेनिन और **ट्रॉट्स्की** ने **अक्टूबर क्रांति** में **बोलशेविकों** का नेतृत्व किया, **अनंति सरकार** को समाप्त किया और **"सारी शक्ति सोवियतों को"** घोषित कर दी।
 - इसने **सोवियत शासन** की स्थापना और **राष्ट्रीयकरण** जैसी साम्यवादी नीतियों की शुरुआत को चिह्नित किया।
- **रूसी गृह युद्ध 1918-1922:** गृह युद्ध के दौरान रेड आर्मी ने **बोलशेविक वरिधी शक्तियों** (व्हाइट गार्ड्स) से लड़ाई लड़ी।
 - बोलशेविक विजयी हुए, **उन्होंने** अपनी शक्ति को मजबूत किया और एकीकृत राज्य का मार्ग प्रशस्त किया।
- **USSR का गठन (30 दिसंबर 1922):** **सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ (USSR)** की आधिकारिक घोषणा की गई, जो विश्व का पहला साम्यवादी राज्य बन गया।
 - **लेनिन के नेतृत्व में केंद्रीकृत आर्थिक नियोजन** और साम्यवादी शासन की शुरुआत हुई।
 - सोवियत नेतृत्व **लेनिन के** बोलशेविक एकीकरण से लेकर **स्टालिन के** केंद्रीकरण, वर्ष 1936 के महान शुद्धिकरण और नाज़ी जर्मनी पर सोवियत संघ की विजय, उसके बाद **ख्रुश्चेव के** सुधारों, **बरेझ्नेव की** स्थिरता और **गोर्बाचेव के** पुनर्गठन के प्रयासों तक विकसित हुआ।
- **द्वितीय विश्व युद्ध और लथिआनिया- वर्ष 1940 का दशक:** बाल्टिक राज्यों (**एस्टोनिया, लातविया और लथिआनिया**) को **मोलोटोव-रिबेंट्रॉप संधि के** बाद वर्ष 1940 (**द्वितीय विश्व युद्ध**) में जबर्न सोवियत संघ में शामिल कर लिया गया था।
 - इन **बाल्टिक राज्यों को** वर्ष 1918 में रूसी साम्राज्य के पतन के बाद स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी।
 - युद्ध के पश्चात् USSR एक **महाशक्ति (वारसाँ संधि) के रूप में उभरा**, जिसने **समाजवादी ब्लॉक का नेतृत्व** किया और **शीत युद्ध की भूराजनीति पर** हावी रहा।


वभिन्न चुनौतियों के कारण सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ?

- **आर्थिक स्थिरता: वर्ष 1970 के दशक तक सोवियत अर्थव्यवस्था** उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में पछिड़ गई, तथा सैन्य और सैटेलाइट स्टेट्स पर अत्यधिक जोर दिया जाने लगा, जिससे संसाधनों का दोहन हो रहा था।
 - न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिये राज्य द्वारा दी जा रही सब्सिडी के बावजूद नागरिकों को **उपभोक्ता कमी और बढ़ते असंतोष का सामना करना पड़ा**।
- **गोर्बाचेव के सुधार: ?/?/?/?/?/?/?/?/?/? (खुलेपन) और ?/?/?/?/?/?/?/?/?/? (पुनर्गठन)** जैसी गोर्बाचेव की नीतियों का उद्देश्य सुधार था लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर हो गई।
 - वर्ष 1990 में बहुदलीय चुनावों और संसदशापि में कमी ने **लथिआनिया और यूक्रेन** जैसे गणराज्यों में **राष्ट्रवादी आंदोलनों को बढ़ावा दिया**।
- **शीत युद्ध के दबाव के कारण पतन:** अमेरिका के साथ महंगी शस्त्रों की दौड़, **अफगानिस्तान में हार** और वर्ष **1989 में बर्लिन की दीवार के गिरने से** सोवियत नयित्करण कमजोर हो गया।
 - पश्चिमी आर्थिक मॉडलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सोवियत संघ की वफिलता ने आंतरिक अक्षमताओं को बढ़ा दिया।
- **राष्ट्रवादी आंदोलन और अलगाव: येल्तसिन** जैसे नेताओं के नेतृत्व में रूसी राष्ट्रवाद ने केंद्रीय नयित्करण को कमजोर कर दिया, जबकि **बाल्टिक देशों और यूक्रेन** ने स्वतंत्रता की मांग की।
 - दिसंबर 1991 तक सोवियत संघ **स्वतंत्र राज्यों में विघटित हो गया**, जिससे **द्विध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था** का अंत हो गया।

सोवियत संघ के पतन से वैश्विक शक्ति गतिशीलता को किस प्रकार नया आकार मिला?

- **एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय:** सोवियत संघ के पतन के साथ **शीत युद्ध समाप्त** हो गया तथा **अमेरिका** एकमात्र महाशक्ति बन गया, जिससे वैश्विक गठबंधनों का स्वरूप परिवर्तित हुआ।
 - **NATO** ने पूर्व की ओर विस्तार करने के साथ **पोलैंड और बाल्टिक राज्यों** जैसे पूर्व सोवियत ब्लॉक के देशों को एकीकृत किया, जिससे रूसी प्रभाव में कमी आई।
- **वैश्विक स्तर पर पूंजीवाद का प्रभुत्व: IMF और विश्व बैंक** जैसी पश्चिमी संस्थाओं ने पूर्व समाजवादी राज्यों में आर्थिक बदलावों को नरिदेशित करने के साथ **उदार लोकतंत्र एवं मुक्त बाज़ार पूंजीवाद** को बढ़ावा देने में भूमिका निभाई।
 - पूर्वी यूरोप के **यूरोपीय संघ** में एकीकरण ने अमेरिका के नेतृत्व वाले वैश्विक आधिपत्य को मजबूत किया।
- **क्षेत्रीय शक्ति परिवर्तन से बहुध्रुवीयता का मजबूत होना:** इस पतन से **चीन एवं भारत** को वैश्विक भूराजनीति में स्वयं को स्थापित करने का अवसर मिला।
 - मध्य एशियाई गणराज्य रूस, चीन एवं पश्चिम के साथ संबंधों को संतुलित करते हुए रणनीतिक हतिधारक के रूप में उभरे।

The Fall of the Soviet Union: Key Events



सोवियत संघ के पतन की वरिषसत समकालीन संघर्षों को कसि प्रकार प्रभावति करती है?

- **राष्ट्रवाद और अनसुलझे वविाद:** वघिंटन के कारण क्रीमिया एवं पूरवी यूक्रेन सहति **क्षेत्रीय वविाद** अनसुलझे रहने से अलगाववादी आंदोलनों को बढ़ावा मलिा।
 - रूस द्वारा वर्ष 2014 में **क्रीमिया पर कब्जा करना** तथा यूक्रेन में चल रहा युद्ध, सोवियत युग के प्रभाव को पुनः प्राप्त करने के उसके प्रयास को दर्शाता है।
- **आर्मेनिया-अज़रबैजान संघर्ष:** **नागोर्नो-काराबाख** पर आर्मेनिया-अज़रबैजान संघर्ष, स्टालिन के वर्ष 1923 के उस नरिणय से प्रेरति है जसिमें इस क्षेत्र को अज़रबैजान को हस्तांतरति कर दिया गया था जबकविहाँ बहुसंख्यक आबादी अर्मेनियाई थी।
 - इस नरिणय से जातीय तनाव का आधार तैयार हुआ, जो सोवियत संघ के पतन के बाद संघर्ष में बदल गया, क्योंकि आर्मेनिया और अज़रबैजान नरिंतरण के लयि प्रतसिपर्द्धा कर रहे थे।
- **कोसोवो-सर्बिया वविाद:** कोसोवो ने वर्ष 2008 में सर्बिया से स्वतंत्रता की घोषणा की लेकनि सर्बिया एवं कई देश अभी भी इसे मान्यता नहीं दे रहे हैं।
 - जातीय तनाव जारी (वशिष रूप से उत्तरी कोसोवो जैसे सर्ब-बहुल क्षेत्रों में) रहने से नरितर अस्थरिता को बढ़ावा मलिने के साथ बाल्कन शांति प्रक्रिया में जटलिता आई।

- **नाटो के वसितार से तनाव में वृद्धि:** नाटो के पूर्व की ओर वसितार को रूस प्रत्यक्ष खतरा मानता है, जिससे उसकी सुरक्षा चिंताओं में वृद्धि हुई।
 - इसके अलावा इससे अफगानिस्तान जैसे संघर्षों को बढ़ावा मिला और इसकी वसितार से पूर्वी यूरोप एवं उसके बाहर भू-राजनीतिक तनाव एवं अस्थिरता को बढ़ावा मिला रहा है।
 - **रूस-यूक्रेन युद्ध** पश्चिमी शक्तियों और रूसी महत्त्वाकांक्षाओं के बीच व्यापक प्रतिस्पर्धा का प्रतीक है।
- **ऊर्जा संसाधन एवं भूराजनीति का आपस में संबंध:** साम्यवादी विचारधारा एवं यूएसएसआर की अनुपस्थिति में रूस अपने तेल, गैस और रक्षा उपकरणों का लाभ उठाकर, विशेष रूप से यूरोप पर प्रभाव डाल रहा है।

सोवियत संघ के पतन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा?

- **आर्थिक विविधीकरण और उदारीकरण:** पतन ने USSR के साथ भारत के व्यापार को बाधित कर दिया, जिससे विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिये वर्ष 1991 में आर्थिक उदारीकरण की आवश्यकता पड़ी।
 - भारत ने **आसियान** देशों के साथ संबंधों को मज़बूत करने हेतु **लुक ईसट पॉलिसी (अब एकट ईसट पॉलिसी)** और **पश्चिमी देशों** के साथ व्यापार और रणनीतिक संबंधों को बढ़ाने के लिये हाल ही में **एकट वेसट पॉलिसी** के माध्यम से अपनी साझेदारियों में विविधता लाई है।
- **रक्षा संबंधों को नई वास्तविकताओं के अनुकूल बनाना:** आपसी रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भारत ने केवल रूसी सैन्य हार्डवेयर का आयात करने से आगे बढ़कर **ब्रह्मोस मिसाइल** जैसे संयुक्त उत्पादन समझौतों के माध्यम से अंतर को कम करना शुरू कर दिया है।
- भारत ने किसी एक स्रोत पर निर्भरता को कम करने के लिये अमेरिका, फ्रांस और इज़रायल के साथ **रक्षा सहयोग** को भी बढ़ाया।
- **सामरिक स्वायत्तता के लिये भू-राजनीतिक पुनर्संरक्षण:** भारत ने अमेरिका और रूस के साथ अपने संबंधों में संतुलन स्थापित करते हुए **कवाड** जैसी अमेरिकी नेतृत्व वाली परियोजनाओं में भाग लिया तथा मॉस्को के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे।
 - भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को मज़बूत करने, बहुपक्षीय साझेदारी को बढ़ाने और अधिक संतुलित वैश्विक व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये **ब्रिक्स** और **SCO** जैसे अन्य संगठनों में भी शामिल हुआ।
 - मध्य एशियाई संसाधनों तक पहुँच, विशेष रूप से **अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC)** जैसी पहलों के माध्यम से, प्राथमिकता बनी रही।
- **सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सहयोग:** सोवियत काल के दौरान सांस्कृतिक आदान-प्रदान के परिणामस्वरूप भारतीय साहित्य और फ़िल्मों का पूर्व सोवियत राज्यों में आकर्षण का एक लंबा इतिहास रहा है।
 - **अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी** और **परमाणु ऊर्जा** में सहयोग जारी रहा, जिससे द्विपक्षीय संबंध में वृद्धि हुई।

दृष्टिभेन्स प्रश्न

प्रश्न: सोवियत संघ के पतन ने वैश्विक शक्ति संरचना को एकध्रुवीय विश्व में कैसे बदल दिया? चर्चा कीजिये

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन-सा देश मोल्दोवा के साथ सीमा साझा करता है? (2008)

1. यूक्रेन
2. रोमानिया
3. बेलारूस

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

??????:

1. लेनिन की नव आर्थिक नीति- 1921 ने स्वतंत्रता के शीघ्र पश्चात् भारत द्वारा अपनाई गई नीतियों को प्रभावित किया था। मूल्यांकन कीजिये। (2014)